

## कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा विश्व जुनोसिस दिवस का आयोजन

आज दिनांक 6 जुलाई, 2022 को कृषि विज्ञान केंद्र, बरेली एवं पशु जन स्वास्थ्य विभाग, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा नवाबगंज ब्लॉक के पुनुवा गांव में विश्व जुनोसिस दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में श्री डी डी शर्मा ने सभी किसान भाइयों का स्वागत किया तथा विश्व जुनोसिस दिवस की बधाई दी।



उन्होंने बताया कि आज के दिन ही विश्व में प्रथम बार पशुजन्य रोग रेबीज का टीकाकरण प्रख्यात वैज्ञानिक लुईस पाश्चर द्वारा किया गया था जिसको देखते हुए 06 जुलाई को प्रति वर्ष “विश्व जुनोसिस दिवस” के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ. हिमानी धांजे ने किसानों को पशुओं से मनुष्यों में होने वाले मुख्य रोग जैसे रेबीज, दिमागी बुखार, ब्रूसेल्लोसिस, टी.बी. आदि के लक्षणों एवं बचाव के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि किसानों का पशुधन से प्राप्त उत्पादों को अच्छी तरह से पकाकर सेवन करें। डॉ. शार्दूल विक्रम लाल ने बताया कि इन रोगों से किसानों को दोगुना नुकसान उठाना पड़ सकता है अतः पशुपालकों से अनुरोध है कि वे नियमित तौर पर अपने पशुधन का टीकाकरण करवाएं तथा पशु आवास में साफ सफाई का ध्यान रखें। इस अवसर पर सही तरीके से हाथ धोने की विधि को भी किसानों के समक्ष विधि प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रीमती वाणी यादव ने भी प्राकृतिक खेती पर अपने विचार रखे।

इस अवसर पर किसानों को मुख्य पशु जनित रोग तथा हाथ धोने की उचित विधि संबंधित लेख भी उपलब्ध कराए गए। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र से श्री डीडी शर्मा, डॉ. शार्दुल विक्रम लाल, श्रीमती वाणी यादव एवं पशु जन स्वास्थ्य विभाग से डॉ. हिमानी धांजे, वैज्ञानिक, पशु जन स्वास्थ्य विभाग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में 59 पुरुषों एवं 12 महिलाओं ने सहभागिता दर्ज की।